

## भारत की भारतीयता की पहचान है हिंदी

सीतापुर 06 अक्टूबर, 2015 “हिंदी भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की प्रतीक होने के साथ साथ भारत की एवं भारतीयता की पहचान है | हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो अटक से कटक तक तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की एकता एवं अखंडता का संदेश देकर हमें भारत की महिमा एवं गरिमा से परिचित कराती है |”

उपरोक्त उद्गार केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की द्वितीय बैठक का उद्घाटन करते हुए जनपद सीतापुर के प्रमुख साहित्यकार श्री रमा रमण त्रिवेदी ने व्यक्त किये | उन्होंने कहा- “आज भारत की विश्व पटल पर पहचान हिंदी के कारण है | हिंदी सरल, सहज एवं सर्वग्राही भाषा है , इसे अत्यंत सुगमता से सीखा जा सकता है, जिसका प्रत्यक्ष उदारहण हिंदी सिनेमा जगत है” |

बैठक में अतिथियों का स्वागत करते हुए कुंवर शैलेन्द्र प्रताप बहादुर सिंह ने कहा कि हम सब आज नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस बैठक में जनपद सीतापुर में हिंदी को एक नई दिशा एवं दशा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प हैं | उन्होंने नगर में प्रतिष्ठित समस्त केन्द्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया |

कार्यक्रम का प्रारम्भ केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर की बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना से हुआ | तदुपरांत बालिकाओं ने स्वागत गीत द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया | विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने कार्यालय में राजभाषा की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | इस क्रम में सबसे पहले पूर्व अध्यक्ष और जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद सीतापुर की प्राचार्या श्रीमती सुमन लता यादव ने अपने विचार व्यक्त किये |

कार्यक्रम में श्री चन्द्रपाल सिंह- वरिष्ठ प्रबंधक इलाहाबाद बैंक सीतापुर शाखा, श्रीमती प्रीती किरण- हिंदी अधिकारी बैंक आफ बड़ौदा, श्री अवधेश शुक्ल- अध्यक्ष हिंदी साहित्य परिषद् उत्तर प्रदेश आदि ने भी अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किये |

समिति की इस बैठक में वार्षिक कार्यक्रम , हिंदी प्रशिक्षण , हिंदी पदों का सृजन तथा कम्प्यूटर में यूनिकोड आधारित हिंदी के अनुप्रयोग, ‘नगर हिंदी निधि’ का सृजन, हिंदी पत्रिका के प्रकाशन पर भी विचार विमर्श हुआ | समिति में हिंदी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संवर्गवार पुरस्कार तथा कार्यालयवार ‘राजभाषा वैजन्ती’ प्रदान करने का निर्णय लिया गया |

इस समिति की बैठक की अध्यक्षता श्री सुनील कुमार- प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर ने की तथा संचालन श्री विकास श्रीवास्तव सचिव नाराकास ने किया | अंत में केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर के उप-प्राचार्य श्री संजय कुमार शर्मा ने सभी सुधिजन को धन्यवाद ज्ञापित किया |